

केन्द्रीयविद्यालय, एन.डी.ए., पुणे-23
आवधिक परीक्षा (प्रथम) [2018-19]

विषय - हिन्दी

अंक-40 - कक्षा- आठवीं

अवधि 90 -मिनट

निर्देश : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

*सुलेख एवं शुद्धता का ध्यान दें ।

प्रश्न न1 निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान -पूर्वक पढ़िए एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए----

अभी न होगा मेरा अंत
अभी अभी तो आया है
मेरे मन में मृदुल वसंत
अभी न होगा मेरा अंत ।
हरे-हरे यह पात,
डालियां कलियां , कोमल गात ।
में भी अपना स्वप्न कर -मृदुल -
फेरूंगा निद्रित कलियों पर
जगा एक प्रत्यूष मनोहर ।

(क) कवि एवं कविता का नाम लिखिए । 1

(ख) 'अभी न होगा मेरा' अंत कवि ने ऐसा क्यों कहा है ? 2

(ग) बसंत के आने पर पेड़ों में क्या परिवर्तन हो जाता है ? 2

प्रश्न 2-- .निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए--2x4=8

(क) मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया?

(ख) लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था ?

(ग) कवि ने अपने आने को 'उल्लास' और जाने को 'आंसू बनकर' बह जाना क्यों कहा है?

(घ) कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया हैं?

(ङ) पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता ?

प्रश्न 3-इन शब्दों में विशेषण और विशेष्य को पहचानिए -

1+1=2

(कोमल गात , -मृदुल वसंत

प्रश्न -4व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञाओं को अलग करके लिखिए3 -

क) बदलू ख)लड़का ग) सुंदरता घ) विद्यालय

प्रश्न -5अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए -----

2

क (लाल -लाल ख घड़ी -घड़ी)

प्रश्न 6 -'पत्र' के योग से बनने वाले चार शब्द लिखिए ----

2

प्रश्न7- संधि कीजिए -----

1+1=2

रवि+इन्द्र ==

महा+आत्मा =

प्रश्न न0 - 8निम्नलिखित में से किन्ही दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए----2+2=4

(क) भारत की खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ?

(ख) दो प्राचीन सभ्यताओं के नाम लिखिए ?

(ग) नेहरू जी ने किन- किन ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा की थी ?

(घ) अहमदनगर के किले की जेल में नेहरू जी ने क्या काम शुरू कर दिया?

प्रश्न न09 निम्नलिखित में से किसी एक-विषय पर अनुच्छेद लिखिए -----पुस्तकालय का महत्व -1

-2स्वतंत्रता दिवस

3रक्षाबंधन

प्रश्न न010 -योग के महत्व को बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए |5